



भिन्नों का विभाजन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{8} \div \frac{5}{7} =$$

$$1\frac{1}{2} \div \frac{4}{6} =$$

$$\frac{6}{7} \div 2\frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{3} \div \frac{4}{8} =$$

$$\frac{3}{4} \div 1\frac{3}{4} =$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{4}{7} =$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{3}{6} =$$

$$\frac{2}{6} \div \frac{7}{8} =$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{4}{5} =$$

$$\frac{3}{9} \div \frac{1}{7} =$$



भिन्नों का विभाजन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{8} \div \frac{5}{7} = \frac{7}{20}$$

$$1\frac{1}{2} \div \frac{4}{6} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$\frac{6}{7} \div 2\frac{1}{2} = \frac{12}{35}$$

$$\frac{1}{3} \div \frac{4}{8} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{4} \div 1\frac{3}{4} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{4}{7} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{3}{6} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{2}{6} \div \frac{7}{8} = \frac{8}{21}$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{4}{5} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{3}{9} \div \frac{1}{7} = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$$